



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 21.03.21

दो नफर शातिर चोर मय 01 मोटरसाईकिल न0 UP14CJ0560 मय एक अदद चाकू के गिरफ्तार ।

कार्यवाही - श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 20.03.21 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब उ0नि0 रविन्द्र बालियान व उनकी टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभि0गण (1) आशीष शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा नि0 ग्राम बनभौरा थाना नरसैना जिला बु0शहर (2) भूपेन्द्र पुत्र प्रदीप कुमार नि0 मुडेट खादर थाना भवन जिला शामली को दिनांक 20.03.21 को समय करीब 22.45 बजे कल्लूगढी कट के पास से गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका - अभि0गण वाहन चोरी कर अपने व अपने परिवार के लिए आर्थिक व भौतिक धन अर्जित करते हैं। पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभि0गण(1) आशीष शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा नि0 ग्राम बनभौरा थाना नरसैना जिला बु0शहर (2) भूपेन्द्र पुत्र प्रदीप कुमार नि0 मुडेट खादर थाना भवन जिला शामली को थाना बापूधाम से चोरी हुई मोटरसाईकिल न0 UP14CJ0560 मय एक अदद चाकू के साथ कल्लूगढी कट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 159/21 धारा 411 भादवि व मु0अ0सं0 160/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त -

- (1) आशीष शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा नि0 ग्राम बनभौरा थाना नरसैना जिला बु0शहर।
- (2) भूपेन्द्र पुत्र प्रदीप कुमार नि0 मुडेट खादर थाना भवन जिला शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- (1)- एक मोटरसाईकिल न0 UP14CJ0560
- (2)- एक अदद चाकू

पंजीकृत अभियोग -

- (1). मु0अ0सं0 159/21 धारा 411 भादवि
- (2). मु0अ0सं0 160/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

आपराधिक इतिहास आशीष शर्मा-

- (1). मु0अ0सं0 159/21 धारा 411 भादवि
- (2). मु0अ0सं0 160/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
- (3). मु0अ0सं0 117/21 धारा 379 भादवि थाना मधुबन बापूधाम

आपराधिक इतिहास भूपेन्द्र -

- (1). मु0अ0सं0 159/21 धारा 411 भादवि
- (2). मु0अ0सं0 117/21 धारा 379 भादवि थाना मधुबन बापूधाम



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 04 शातिर वाहन चोर मय चोरी की 09 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी मय एक तमंचा .315 बोर

मय एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 20.03.2021 की रात्रि को चेकिंग के दौरान 04 शातिर वाहन चोर **1. केशव 2. राहुल 3. अमित 4. तौफीक** को विजय नगर तिराह थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ व अपराध करने का तरीका

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा रात्रि में चेकिंग के दौरान दो वाहन चोर अभिगण केशव व राहुल को चोरी की मोटर साइकिल व एक अदद चाकू के साथ विजयनगर तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिनसे गहनता से पूछताछ की गयी तो उन्होने अपने दो और साथियों अमित व तौफीक के बारे में बताया उनकी निशादेही पर बन्द पड़े राठी मिल एरिया में खण्डर पर जाकर अभियुक्त अमित व तौफीक को भी गिरफ्तारी किया गया। जिनके कब्जे से 08 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी चोरी की बरामद की गयी और उनके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर भी बरामद किये गये। जिन्होने पूछताछ पर बताया कि साहब हम मोटर साइकिल चोरी करके उन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर इधर उधर घूम फिर कर दूसरी मोटर साइकिल चोरी कर लेते है तथा सस्ते दोमों पर कबाड़ियों को बेच देते है। **अभिगण के कब्जे से कुल 09 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी चोरी की व एक अदद तमंचा .315 मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना।**

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणों का नाम व पता

- 1- केशव पुत्र सतन नि0 चाऊपुर थाना निजोडा जिला सम्भल
- 2- राहुल पुत्र राकेश नि0 सुदामापुरी थाना विजयनगर गाजियाबाद
- 3- अमित पुत्र सुरेन्द्र नि0 ब्रजघाट थाना गढमुकटेश्वर जिला हापुड
- 4- तौफीक पुत्र फन्ने खाँ नि0 खसरा नं0 9, सुदामीपुरी थाना विजयनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1. मो0 सा0 पैशन प्रो रंग काला न0 यू0पी0 14 सीएम 9159 सम्ब0 मु0अ0सं0 389/21 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गा0बाद
2. मो0 सा0 स्पलेन्डर रंग काला न0 यूपी 16 बाई 8841 लगी है इंजन न0 HA10EA9HM62354 व चैसिस न0 MBLHA10EJ9HM08949
3. मो0 सा0 एचएफ डीलक्स रंग लाला व काला न0 यू0पी0 37 एल 0334 इंजन न0 HA11EMJHM10953 चैसिस न0 MBLHACU21JHM30643
4. मो0सा0 पैशन एक्स प्रो रंग काला न0 यूपी 14 सीजैड 7843 चैसिस न0 MBLJA12AEGGJ01180 इंजन न0 JA12ABGGJ01180 सम्ब0 मु0अ0सं0 307/21 धारा 379 भादवि थाना विजयनगर
5. मो0 सा0 प्लेटिना रंग काला जिस पर न0 प्लेट पर डीएल 5 एसबीपी 2169 अंकित है जिसका इंजन न0 DZUBUL85055 चैसिस न0 MD2DDDZZZUP104940 है जिसका असली न0 UP14BQ8373

6. मो0 सा0 एफजैड रंग न0 प्लैट मौजूद नहीं है चैसिस न0 ME121C0E7C2030851 चैक करके देखा तो इसका रजिस्ट्रेशन न0 UP14BS8390 व इंजन न0 21CE030714
7. मो0 सा0 अपाची रंग सफेद न0 UP16BA7359 इंजन न0 BE4LH2190456 चैसिस न0 MD634BE41H2L91855 जिसका असली नम्बर UP14 DK 1645 सम्बन्ध मु0अ0सं0 66/19 धारा 379 भादवि थाना विजयनगर गा0बाद
8. मो0 सा0 टीवीएस विगो न0 DL4SCE0480 जिसका इंजन न0 G4KC1442536 चैसिस न0 MD626AG46C1K66992
9. स्कूटी रंग काली न0 UP70AW7306 इंजन न0 08367 चैसिस न0 MBNJF16EC8GK08327
10. मो0 सा0 YBR यामा जिसका न0 UP16AC6326 इंजन न0 5TSF036553 चैसिस न0 ME15TSOF1B2036486
11. एक अदद तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर अभि0 अमित से बरामद
12. एक अदद चाकू अभि0 राहुल से बरामद

गिरफ्तार अभि0गण का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 309/21 धारा 411/414/482 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम केशव आदि 04 नफर अभि0
- 2- मु0अ0सं0 310/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम राहुल
- 3- मु0अ0सं0 311/21 धारा 3/25 आर्म्स भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम अमित
- 4- मु0अ0सं0 389/21 धारा 379 भादवि थाना कविनगर गा0बाद
- 5- मु0अ0सं0 307/21 धारा 379/411 भादवि थाना विजयनगर गा0बाद
- 6- मु0अ0सं0 66/19 धारा 379/411 भादवि थाना विजयनगर गा0बाद



थाना लोनी पुलिस द्वारा शराब तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त 48 पच्चे अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त असलम पुत्र नूर इस्लाम नि0 वजीरपुर इन्डट्रीयल एरिया ऊधम सिंह पार्क दिल्ली -52 को 48 पच्चे अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का जिन पर IMPACT GRAIN WHISKY FOR SALE IN HARYANA ONLY लिखा है के साथ नसबन्दी तिराहा चौकी क्षेत्र डाबर तालाब से दिनांक 21.03.2021 की रात्रि को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास

असलम पुत्र नूर इस्लाम नि0 वजीरपुर इन्डट्रीयल एरिया ऊधम सिंह पार्क दिल्ली -52

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-331/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

48 पच्चे अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का

दो चाकू सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के नेतृत्व में उ०नि० मोहन सिंह की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 नफर अभियुक्त 1. पारस पुत्र रविन्द्र नि०ग्राम रावली थाना मुरादनगर गाजियाबाद , 2. शिवा पुत्र पवन निवासी हरवंशनगर थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद को दिनांक 21.03.2021 समय 00.05 वजे बेगमाबाद नाले के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से एक एक चाकू बरामद हुआ है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण:-

1. पारस पुत्र रविन्द्र नि०ग्राम रावली थाना मुरादनगर गाजियाबाद ,
2. शिवा पुत्र पवन निवासी हरवंशनगर थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद

अभियुक्त पारस का आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 252/2021 धारा-4/25 आयुध अधि० थाना मोदीनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त शिवा का आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 253/2021 धारा-4/25 आयुध अधि० थाना मोदीनगर गाजियाबाद



चोरी की एक मो०सा० स्पलेण्डर सहित एक शातिर चोर गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के नेतृत्व में उ०नि० भरत सिंह परिहार की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त सचिनपाल पुत्र स्व० बालकिशन निवासी घोसीपुर थाना खरखौंदा जिला मेरठ उम्र 27 वर्ष को दिनांक 20.3.2021 समय 19.30 वजे चौकी कादरावाद के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से एक अदद स्पलेण्डर प्रो मोटरसाइकिल (नम्बर प्लेट DL 5 SBU 5744 जिसका असली नम्बर – UP 15 AZ 8525) मय फर्जी नम्बर प्लेट के बरामद हुई है। जो दिनांक 25.07.2019 को सोनिया विहार दिल्ली से चोरी हुई थी। जिसके सम्बन्ध में मु०अ०सं० 405/18 धारा 379 भादवि थाना नौचन्दी मेरठ में पंजीकृत है।

अपराध का तरीका-

अभियुक्त शातिर किस्म का चोर है जो मौका पाकर लाक तोड़कर वाहन चोरी करते है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त-

सचिनपाल पुत्र स्व० बालकिशन निवासी घोसीपुर थाना खरखौंदा जिला मेरठ उम्र 27 वर्ष



अरुणाचल प्रदेश की अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.03.21 समय 11.25 बजे थाना भोजपुर क्षेत्र में चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त सतीश पुत्र रामपाल नि0 ग्राम अखाडा थाना भोजपुर गा0बाद को गिरफ्तार किया गया। सतीश उपरोक्त की तलाशी ली गयी तो इसके हाथ में लिये थैले से 20 पच्चे अरुणाचल प्रदेश मार्का अवैध शराब के बरामद हुई।

अपराध कारित करने का तरीका: -

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त सतीश उपरोक्त ने बताया कि मैं ये शराब सस्ते दामों में खरीद कर महंगे में बेचकर पैसे कमा लेता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

सतीश पुत्र रामपाल नि0 ग्राम अखाडा थाना भोजपुर गा0बाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 89/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद।

बरामदगी का विवरण:-

20 पच्चे अवैध शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का



थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा अभियुक्त रितिक को नाजायज तमंचा सहित गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना चौकी क्षेत्र संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम से अभियुक्त रितिक पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी ग्राम नंगला अटौर थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद को मय 01 नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त -

1- रितिक पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी ग्राम नंगला अटौर थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद उम्र - 19 करीब

बरामदगी का विवरण -

1- 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस (सम्बन्धित मु0अ0सं0 - 120/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद।

(गाजियाबाद – ऑपरेशन - 420 अभियान के अन्तर्गत जमीन के फर्जी कागजात बनाकर सीधे साधे लोगों को ठगने वाला

एक शांति अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन में चलाये जा रहे **ऑपरेशन 420 अभियान** के अन्तर्गत व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन – 420 के अन्तर्गत थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहित जैन पुत्र स्व० आर०सी० जैन निवासी म०न० 156 ए ब्लॉक सै० 10 वसुन्धरा थाना इंदिरापुरम को आज दिनांक 21/03/2021 को समय करीब 12.40 बजे अटल चौक सै० 15 वसुन्धरा से गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं खाली पड़ी जमीन/प्लॉटों के मालिक का नाम पता तजदीक करके उनके फर्जी कागज तैयार करके, स्वयं व अपने परिवार के लोगों को वारिसान बनाकर अलग अलग लोगों को जरूरत के हिसाब से बेचकर ठगी करता हूँ। दिनांक 14/10/2019 को श्री अनिल कुमार यादव पुत्र पी०एस० यादव निवासी फ्लैट नं० 101 सुपरटैक रेजीडेंसी सै० 5 वैशाली इंदिरापुरम गाजियाबाद को मैंने प्लॉट नं० 10ए/214 वसुन्धरा गाजियाबाद जिसके कागज मैंने अपने और अपने परिवारजनों के नाम फर्जी तरीके से तैयार करके 3000000 रु० बतौर बयाना प्राप्त कर लिये थे तथा दिनांक 12/11/2019 को चिराग जैन पुत्र स्व० श्री सुनील कुमार जैन नि० म०न० 5 द्वितीय तल सै० 14ए वसुन्धरा इंदिरापुरम गाजियाबाद को मैंने उपरोक्त प्लॉट के फर्जी कागजात बनाकर 1100000रु० बतौर बयाना प्राप्त कर धोखाधड़ी करते हुए पैसे हड़प लिये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :

1. मोहित पुत्र स्व० श्री राजकुमार जैन नि० 10ए/156 वसुन्धरा, इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 381/21 धारा 420/406/467/468/471/120-बी भादवि थाना इंदिरापुरम गा०बाद

2. मु०अ०सं० 382/21 धारा 420/406/467/468/471/120-बी/506 भादवि थाना इंदिरापुरम गा०बाद



वांछित अभि० गिरफ्तारी मे चले चैकिंग अभियान के अन्तर्गत 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री गोपाल कृष्ण शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट के मु०अ०सं० मु०अ०सं० 243/21 धारा 381 भादवि मे वांछित अभि० नरेश पुत्र स्व० श्री लालचन्द निवासी म०न० 37 प्रेमनगर थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद को उसके मसकन से थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि० 20/03/2021 को को समय 22.10 बजे गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरण -

दिनांक 24/02/2021 को वादिया श्रीमति डा० वीना मित्तल पत्नि स्व० श्री प्रमोद मित्तल नि० 104 राकेश मार्ग पी०के० चैरिटेबल अस्पताल जीटी रोड थाना सिहानीगेट गा०बाद द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 243/21 धारा 381 भादवि बनाम श्रीमति सीमा आदि 03 नफर द्वारा वादी के घर से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया था । पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमे के वांछित अभियुक्त नरेश उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत कराकर अभि० के मसकन से दि० 20/03/2021 को समय 22.10 बजे जायज पुलिस हिरासत में लिया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

नरेश पुत्र स्व० श्री लालचन्द निवासी म०न० 37 प्रेमनगर थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०स० 243/21 धारा 381 भादवि थाना सिहानीगेट गा०बाद



थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार ,कब्जे से चोरी की एक गाडी क्रेटा फर्जी नम्बर प्लेट सहित

बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं **वांछित अपराधियों** के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 21.03.2020 को कडकड माडल पार्क के पास बन्द फैक्ट्री से रात्रि समय करीब 02.20 AM बजे थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की एक क्रेटा गाडी बरामद हुई ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. वसीम अहमद पुत्र शकील अहमद नि० मेवाती मौहल्ला नौरंगाबाद चौराहा इटावा हाल पता F-18 गली नं० 6/3 जाकिर नगर थाना जामिया नगर दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण -

1. एक गाडी क्रेटा (सम्ब० मु०अ०स० 78/21 धारा 379/411/413/420/467/468/471 भादवि)
2. एक फर्जी न० प्लेट (AS 06 AB 0388)

अभियुक्त का अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसका एक संगठित गिरोह है जो अपने साथियों के साथ मिलकर NCR क्षेत्र में घूम फिर कर रैकी करते है तथा मौका मिलने पर लम्जरी गाडियो को चोरी कर अन्य राज्यों में ले जाते है तथा गाडियो की नम्बर प्लेट बदलकर डूब्लीकेट आरसी बनाकर अन्य राज्यों में बेच कर आर्थिक लाख कमाते है । जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० 0078/21 धारा 379/411/413/420/467/468/471 भादवि थाना लिंकरोड गा०बाद
2. मु०अ०स० 0250/20 धारा 379 भादवि थाना लिंकरोड गा०बाद
3. मु०अ०स० 0382/20 धारा 379 भादवि० थाना लिंकरोड गा०बाद



#आपरेशन निहत्था के तहत थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों की धरपकड व जुर्म रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान आपरेशन निहत्था के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 20-03-2021 को सिद्धबाबा मंदिरके पास खानपुर मोड से चैकिंग अभियान के दौरान समय करीब 8.40 बजे अभियुक्त सोनू पुत्र भरत कुमार निवासी गली नं0-10 दयालपुर दिल्ली को 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस नाजायज के गिरफ्तार किया गया। जिसका थाना हाजा पर मु0अ0सं0 141/21 धारा 3/25 A Act पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

1. सोनू पुत्र भरत कुमार निवासी गली नं0-10 दयालपुर दिल्ली

1.मु0अ0सं0 141/21 धारा 3/25 A Act थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

बरामदगी का विवरण - 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस नाजायज।



#आपरेशन निहत्था के तहत थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों की धरपकड व जुर्म रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान आपरेशन निहत्था के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 20-03-2021 को भगत सिंह चौक से चैकिंग अभियान के दौरान समय करीब 22.00 बजे अभियुक्त इमरान पुत्र दीन मो0 निवासी बाबू होटल वाला 30फुटा रोड अशोक विहार लोनी गाजियाबाद को 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस नाजायज के गिरफ्तार किया गया। जिसका थाना हाजा पर मु0अ0सं0 142/21 धारा 3/25 A Act पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

1 इमरान पुत्र दीन मो0 निवासी बाबू होटल वाला 30 फुटा रोड अशोक विहार लोनी गाजियाबाद 1.मु0अ0सं0 142/21 धारा 3/25 A Act थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

बरामदगी का विवरण - 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस नाजायज। एक मोटर साईकिल DL5SAL-0358 एक मोबाईल,



#आपरेशन निहत्था के तहत थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों की धरपकड व जुर्म रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान आपरेशन निहत्था के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 21-03-2021 को गेट नं0-2 अग्रौला से चैकिंग के दौरान समय करीब 09.30 बजे अभियुक्त योगेश कुमार पुत्र ज्ञानेन्द्र निवासी बलराज हाल के पास गाजियाबाद को 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस नाजायज व एक मोटर साईकिल DL5SAL-0358 एक मोबाईल,के गिरफ्तार किया गया। जिसका थाना हाजा पर मु0अ0सं0 143/21 धारा 3/25 A Act पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ अपराधिक इतिहास -

1 योगेश कुमार पुत्र ज्ञानेन्द्र निवासी बलराज हाल के पास गाजियाबाद 1.मु0अ0सं0 143/21 धारा 3/25 A Act थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

बरामदगी का विवरण - 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस नाजायज।



एक वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल आदेशानुसार चलाये गये अवैध शराब तस्कर/विक्रेताओं के विरुद्ध अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा महोदय के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह के सफल पर्यवेक्षण में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में चैकिंग के दौरान उ0नि0 महेशचन्द की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वाँछित अभियुक्त प्रशान्त पुत्र गंगा प्रसाद निवासी कुँए वाला मौहल्ला बेगमाबाद थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर बस अड्डा मोदीनगर से दिनांक 21.03.2021 को समय 05.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 20.03.2021 को वादी निवासी बंगला विहार बेगमाबाद थाना मोदीनगर द्वारा थाना हाजा पर अपने पोते उम्र 6 वर्ष व उम्र 5 वर्ष के साथ अभियुक्त प्रशान्त उपरोक्त द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर देकर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा रहा है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रशान्त पुत्र गंगा प्रसाद निवासी कुँए वाला मौहल्ला बेगमाबाद थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण- -

मु0अ0सं0 250/21 धारा 377 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना मोदीनगर



मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार. कब्जे से 5 किलो नाजायज गांजा बरामद ।

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशन मे मादक पदार्थ की तस्करी करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान मु0अ0सं0 171/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त छोटे उर्फ हफीजुद्दीन पुत्र बाबू निवासी नाला पटरी सहबिस्वा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को मुरादनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 20.03.2021 की रात्रि को चैकिंग के दौरान गंदे नाले की पुलिया के पास सहबिस्वा के पास से समय करीब 23.40 बजे गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 5 किलो नाजायज गांजा बरामद हुआ ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं गांजा को सस्ते दाम में खरीदकर इसकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर आने जाने वाले लोगो को बेच देता हूँ जिससे मुझे काफी मुनाफा हो जाता है

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त –

छोटे उर्फ हफीजुद्दीन पुत्र बाबू निवासी नाला पटरी सहबिस्वा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता

- मु0अ0सं0 1217/18 धारा 147,148,307,323,354ग,354घ,504,506 भादवि थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 722/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 598/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 171/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 194/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद

बरामदगी

5 किलो नाजायज गांजा बरामद